

एक कमरे के साथ रहना



आप और आपके रूममेट्स एक महत्वपूर्ण समय और व्यक्तिगत स्थान को एक साथ साझा करते हैं। सकारात्मक रूममेट अनुभव और कॉलेज जीवन के लिए स्वस्थ रिश्तों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।

अपने रूममेट के साथ बेहतर करने के लिए कहने के लिए चीजें

जीवन शैली

आप आमतौर पर किस समय उठते हैं और सोने जाते हैं?



एक कट ऑफ समय पर चर्चा करें जहां रोशनी और संगीत को बंद करने की आवश्यकता है।

आप घर पर कितनी बार खाना बनाते हैं?



एक शेड्यूल सेट करें और रसोई का उपयोग करने के लिए मुड़ें।

आप अपना सप्ताहांत कैसे बिताते हैं?



घर में टेलीविजन जैसी सामान्य वस्तुओं का उपयोग कौन कर सकता है, इस पर एक कार्यक्रम की योजना बनाएं।

संगतता

ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते?



एक-दूसरे के पालतू जानवरों से बचने से अनावश्यक बहस को रोकने में मदद मिल सकती है।

आप संघर्षों से कैसे निपटते हैं?



एक दूसरे को बताएं कि आप किस तरह से निपटते हैं:

1. संघर्ष (जैसे मुद्दे को तुरंत संबोधित करना या मुद्दे को फिर से करने से पहले ठंडा करना)
2. भावनाएँ (जैसे दबाव में होना, गुस्सा या परेशान होना)

आपकी बुरी आदतें क्या हैं?



खाली टॉयलेट पेपर रोल को बदलना भूल जाएं? अपने भोजन को हफ्तों के लिए फ्रिज में छोड़ दें?

अपनी बुरी आदतों के बारे में पारदर्शी रहें। कौन जानता है कि आपका रूममेट आपको उनसे अलग होने में मदद कर सकता है

स्वच्छता

क्या आप खाना पकाने के तुरंत बाद बर्तन धोते हैं?



एक सफाई अनुसूची बनाएं, कामों को विभाजित करें, या एक साथ अपार्टमेंट को साफ करने के लिए समय निकालें।

टॉयलेट को कितनी बार साफ करना चाहिए?

अतिथियों

क्या आप पार्टियों को फेंकते हैं?



अनुमति दिए गए मेहमानों की संख्या, उन गतिविधियों के प्रकारों पर चर्चा करें जिन्हें आयोजित किया जा सकता है और मेहमान क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।

क्या आपके पास एक लड़का / लड़की दोस्त है जो बहुत कुछ करने वाला है?